

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2023 — अश्विन 5, शक 1945

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2023

आदेश

एफ 11-28/2015/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 35(1)(ग) के प्रावधान अनुसार संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग (मिशन वात्सल्य) को नोडल अधिकारी नियुक्त करता है, जो कार्य सदस्य सचिव को शासी निकाय की बैठकों की व्यवस्था करने और मुख्य अधिकारी द्वारा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्य करने में सहायता करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2023

अधिसूचना

एफ 11-28/2015/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 35(1)(घ) के प्रावधानों के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण हेतु शासी निकाय का निम्नानुसार गठन करता है —

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग | — | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त/संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग | — | सदस्य सचिव |
| 3 | आयुक्त/संचालक संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें | — | सदस्य |
| 4 | बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष (चक्रानुक्रम में) | — | सदस्य |
| 5 | विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि(चक्रानुक्रम में) | — | सदस्य |
| 6 | बाल कल्याण के क्षेत्रकार्यरत सिविल सोसायटी का एक सदस्य | — | सदस्य |
| 7 | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य | — | सदस्य |
- जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों को जारी करने वाले अधिकारियों को राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
 - राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का शासी निकाय अपने समग्र कार्यों की समीक्षा करने, राज्य में बालक के दत्तक ग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में परिचालन के साथ-साथ रसद मुद्दों और बाधाओं को दूर करने और अनाथ और निराश्रितों बालकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.